## Tijaria Polypipes Limited



Date: February 13, 2021

To,
The Manager,
Department of Corporate Services
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai- 400001

Scrip Code: 533629

To,
Listing Compliances,
National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza,
Bandra Kurla Complex,
Mumbai-400051

Company Symbol: TIJARIA

Dear Sir,

## Sub: Submission of copies of Newspaper Advertisement in respect to publication of Financial Results for the quarter and Nine months ended December 31, 2020

Please find enclosed herewith the copies of Newspaper Advertisement published on 13<sup>th</sup> February, 2021 in Hindustan Mint (New Delhi Edition) and Business Remedies (Jaipur Edition) in respect of Un-audited Financial Results for the quarter and Ninc Mediended December 31, 2020.

Kindly take the same on your record.

Thanking you,

Yours Truly,

For Tijaria Polypipes Limited

Ankita Khandelwal Company Secretary & Compliance Officer

M.No. A50855

#### **Enclosed:**

- 1. Copy of Hindi Advertisement
- 2. Copy of English Advertisement

## PIPING SOLUTIONS

Correspondence Office:

A-130 (H), Road No. 9-D, Vishwakarma Industrial Area Jaipur-302013 (Raj.) India Tel: 0141-2333722

E-mail: info@tijaria-pipes.com

Regd. Office / Works:

SP-1-2316, RIICO Industrial Area Ramchandrapura, Sitapura Extn. Jaipur-302022 ( Raj.) India.

CIN - L25209RJ2006PLC022828

### **BUSINESS** न्यूज ब्रीफ

## राजस्थानी सिनेमा के लिए संजीवनी का काम करेगी फिल्मिसटी : मुकेश माधवानी



उदयपुर। राजस्थानी सिनेमा विकास संघ, राजस्थान कला संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वावधान में राजस्थानी सिनेमा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत उदयपुर में राउंड टेबल टॉक शो हुआ। इसमें राजस्थानी मोट्यार परिषद् के प्रदेश अध्यक्ष एवं आडावळ निदेशक डॉ शिवदान सिंह जोलावास मुख्य वक्ता थे। उन्होंने राजस्थानी सिनेमा महोत्सव में चर्चा के दौरान कहा कि राजस्थानी सिनेमा देश में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वहीं राजस्थानी सिनेमा विकास संघ के जिला प्रभारी मुकेश माधवानी (राजस्थान लाईन प्रोड्यूसर) ने कहा कि अगर उदयपुर में फिल्मसिटी बनती है तो यह राजस्थानी सिनेमा के लिए संजीवनी का काम करेगी। आज के दौर में अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थानी सिनेमा उतना लोगों में पहुंच नहीं बना पाया है, इसका मुख्य कारण स्थानीय बोली को सिनेमा के रूप में देखने वाले दर्शक कम है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लोग राजस्थानी सिनेमा को पसंद नहीं करते। हम देख सकते हैं कि विभिन्न यूट्यूब चैनल्स ऐसे हैं, जिसमें काफी ज्यादा संख्या सब्सक्राइबर्स है। ऐसे में हमें आवश्यकता है कि राजस्थानी सिनेमा को जीवित रखने वाले प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और कलाकारों के लिए एक ऐसी फिल्मिसटी का निर्माण हो जहां पर राजस्थानी सिनेमा को प्राथिमकता मिल सके।

### भीलवाड़ा जिला स्तरीय नेटबॉल प्रतियोगिता १३-१४ फरवरी को

भीलवाडा। जिला नेटबॉल संघ के तत्वाधान में सीनियर नेट बॉल प्रतियोगिता १३ और १४ फरवरी को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भीमगंज आरसी व्यास खेल मैदान पर आयोजित होगी। संघ की अध्यक्षा मोना रामपाल शर्मा ने बताया कि भीलवाडा जिला प्रतियोगिता से चयनित खिलाडी राज्य स्तर प्रतियोगिता में भाग लेंगे। प्रतियोगिता की तैयारी के लिए श्रवण खटीक व पवन खटीक को संयोजक बनाया गया है।

### जोधपुर के फिल्म निर्माता ओम छंगाणी 'प्राइड ऑफ राजस्थान' अवार्ड से होंगे सम्मानित

जयपुर। रिफ फिल्म क्लब द्वारा आयोजित और फैडरेशन ऑफ फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया ( नॉर्थ रीजन ) द्वारा मान्यता प्राप्त



राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (रिफ) का सातवां संस्करण 20 से 24 मार्च 2021 को जयपुर और जोधपुर में एक हाइब्रिड प्रारूप में सिनेमा में संगीत थीम पर आयोजित किया जाएगा। रिफ के संस्थापक,

निर्देशक और सीईओ सोमेंद्र हर्ष ने बताया कि इस वर्ष राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेरिटवल में प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड जोधपुर के फिल्म निर्माता ओम छंगाणी को दिया जाएगा। प्राइड ऑफ राजस्थान हर वर्ष की तरह रिफ में फिल्मी दुनियां की ऐसी शख्सियत को दिया जाता है जिसकी जड़े राजस्थान से जुड़ी है और देश-विदेश के सिनेमा में अपना मुकाम हासिल किया है।

जयपुर। उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने विधानसभा में कहा कि बीकानेर जिले में स्थापित उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं देकर बाहरी श्रमिकों को काम पर लेने संबंधी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य में स्थानीय रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2019 में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना लागू की गई है, जिसके कारण उद्यमियों द्वारा अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जा रहा है।

मीणा प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत नियोक्त । द्वारा 75 प्रतिशत स्थानीय लोगों को काम पर रखने पर श्रीमकों के ईपीएफ तथा ईएसआई के अंशदान का 75 प्रतिशत पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्थानीय अनुसूचित जाति, जनजाति तथा ओबीसी की महिला एवं दिव्यांग को भी रोजगार देने पर 75 प्रतिशत पुनर्भरण का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर रोजगार को बढ़ावा



देने के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाये जा रहे हैं, जिसमें अभी तक 4 लाख 20 हजार लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इनमें से लगभग एक लाख 90 हजार प्रशिक्षित युवाओं को गत 2 वर्षों में रोजगार भी मिला है।

इससे पहले विधायक सुमित गोदारा के मूल प्रश्न के जवाब में मीना ने बताया कि राज्य में उद्योगपतियों को निवेश हेतु प्रोत्साहित करने एवं रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-२०१९ प्रभावी है, जिसकी कार्याविध 31 मार्च 2026 तक है। इस योजना को राजस्थान की फ्लेगशिप योजनाओं में सम्मिलित किया गया है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत नियोक्त । के अंशदान का न्यूनतम ५० प्रतिशत पुनर्भरण (7 वर्षों के लिए) प्रदान किया जाता है। इस योजनान्तर्गत स्थानीय कार्मिक/मजबूर (राजस्थान में अधिवासित) को

नियोजित किये जाने पर श्रमिकों ईपीएफ/ईएसआई के नियोक्त । के अंशदान का न्यूनतम 75 प्रतिशत पुनर्भरण का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने बताया कि बीकानेर जिले में स्थापित उद्योगों व लूणकरणसर एवं कोलायत विधानसभा क्षेत्रों में नये स्थापित हो रहे सौर ऊर्जा प्लांट उद्योग में स्थानीय युवाओं को नकारे जाने एवं बाहरी श्रमिकों को कार्य पर लिये जाने से संबंधित कोई शिकायत विभाग के स्तर पर के अनुसार वहां कार्यरत इकाइयों में योग्यता एवं अनुभव के आधार पर स्थानीय एवं बाहरी श्रीमक दोनों कार्यरत

### NUTECH GLOBAL LIMITED

CIN NO.- L17114RJ1984PLC003023

REGD. OFFICE- E-149, RIICO INDUSTRIAL AREA, BHILWARA-311001, (RAJASTHAN )
TEL NO.- +91 1482 260508, E-MAIL ID: info@nutechglobal.com WEBSITE: www. nutechglobal.com

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULT FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31st DECEMBER, 2020
(Rs. in Lacs, except as stated)

SL.	Particulars		Unau	dited		Audited
No.		Quarte	rEnded	Nine Mon	ths Ended	Year Ended
		31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.03.2020
1.	Total Income from Operations (Net)	853.73	1176.70	1398.77	2842.88	3622.46
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(23,56)	4.72	(148.92)	7.42	(10.27)
3.	Net Profit / (Loss) for the period before Tax(after Exceptional and/or Extraordinary items)	(23,56)	4.72	(148.92)	7.42	(10.27)
4.	Net Profit / (Loss) for the period after Tax(after Exceptional and/or Extraordinary items)	(23.56)	3.49	(148.92)	5.40	(7.71)
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(23.56)	3.49	(148.92)	5.40	(7.71)
6.	Equity Share Capital (Face Value Rs. 10/-each)	320.37	320.37	320.37	320.37	320.37
7.	Reserve excluding Revaluation Reserve as per balance sheet of previous accounting year.		•		-	386.14
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)- 1.Basic 2. Diluted	(0.74)	0.11	(4.65)	0.17	(0.24)

The above unaudited standalone financial results have been reviewed and recommended by Committee and approved by the Board of Directors at their respective meeting held on 12th Febru The Statutory auditors have carried out a limited review of the results for the quarter and nine mon December 31st December; 2020

The results for the Quarter and nine months ended 31" December, 2020 have been restated to Comply with Ind AS to make them comparable with the Current Period. Further previous period figures have bee regrouped/reclassified, wherever necessary, to confirm with the current period presentation.

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange inder Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The fur-ormat of the Quarterly Nine month ended Financial Results is available on the Stock Exchange website www.bseindia.com and on the company's website, www.nutechglobal.com. By the order of the Board For Nutech Global Limited

sd/-(Rajeev Mukhija)

### RAJASTHAN TUBE MANUFACTURING COMPANY LTD 28-37 Banke Bihari Ind. Area, Jatawali Mod, Maharkala Road, Village Dehra, Teh. Chomu, Jaipur-30 Email:rajtube@hotmail.com, website :www.rajtube.com ,CIN:- L27107RJ1985PLC003370 EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR TO DATE ENDED 31ST DECEMBER, 2020

		(Rs. I	in Lacs, unles	s otherwise stated)	
S.	Particulars		er Ended	Year to date ended	
No.		31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	
1	Total Income from Operations	1675.49	1460.30	3178.46	
2	Net Profit / (Loss) for the period from ordinary activities (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	55.92	(49.89)	39.94	
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items )	55.92	(49.89)	39.94	
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	55.92	(49.89)	39.94	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	55.92	(49.89)	39.94	
6	Equity Share Capital(Face Value Rs 10/-)	449.99	449.99	449.99	
7	Earnings Per Share -				
	1.Basic:	1.24	(1.11)	0.89	
	2.Diluted	1.24	(1.11)	0.89	

2.Diluted 1.24 (1.11) 0.89

Notes: 1. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended 31st December, 2020, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange (www.bseindia.com) and Company's website(www.rajlube.com) 2. The above Unaudited Results for Quarter and nine months ended 31st December, 2020 have been reviewed by audit committee and approved by the board of Directors at their respective meeting held on 12th February,2021. 3. The Company is engeged in the business of manufacturing of ERW Steel Tubes. As there is only one reportable segment, the company has not given any segment information. 4. These financial results have been prepared in accordance with indian Accounting Standards (Ind A5) prescribed under Section 13s of the Companies Act 2013 read with the relevant Rules thereunder and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015. 5. Provision for taxation with the companies and on helphalf of Regard of directors. Place : Jaipur Harish Chand Jain

Dated: 12th February, 2021 Managing Director, DIN: 01504391

### जल जीवन मिशन में 2 हजार ७७० गांवों में ९ लाख ७६ हजार घरों में नल से जल कनैक्शन की मंजुरी

**जयपुर।** जलदाय विभाग की जल जीवन मिशन अन्तर्गत राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांश पंत की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई।

बैठक 14 माह के अंतराल के

बाद आयोजित हुई, इससे पहले यह बैठक दिसम्बर २०१९ में आयोजित हुई थी। अतिरिक्त मुख्य सचिव पंत ने बताया कि बैठक में प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत 2 हजार 770 गांवों में 9 लाख 76 हजार घरों तक नल से जल कनैक्शन देने को मंजूरी प्रदान की गई। इसमें सिंगल एवं मल्टी विलेज योजनाएं शामिल है।

## बॉयोडीजल में उपयोग के लिए कुकिंग ऑयल की 30 रूपये प्रति लीटर खरीद की सिफारिश

जयपुर। प्रदेश में इस्तेमाल किये हुए कुकिंग ऑयल को बॉयोडीजल बनाने के उपयोग में लाने के लिए बढावा दिया जायेगा। इसके लिए बॉयोडीजल प्राधिकरण के प्रस्ताव पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा कुकिंग ऑयल के लिए 30 रूपये प्रति लीटर की खरीद दर की सिफारिश की गई है।

बैठक में राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष एवं खाद्य सचिव नवीन जैन ने उपस्थित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दे रहे थे।

उन्होंने कहा कि फूड सेफ्टी एण्ड स्टैंडर्ड ऑफ इण्डिया के नियमानुसार कुकिंग ऑयल को

प्रदेशभर में खोले जाएंगे जनता क्लिनिक : चिकित्सा मंत्री

पर यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश राज्यों में खाद्य उद्योग से जुड़े हुए होटल एवं रेस्टोरेन्ट के लिए कुकिंग ऑयल से बॉयोडीजल के निर्माण के लिए बने हुए नियमों पर भी विभाग द्वारा गहनता से चर्चा की गई।

शासन सचिव ने बताया कि एक ही कुकिंग ऑयल का बार-बार इस्तेमाल करने से कुकिंग ऑयल की प्रकृति एवं गुणवत्ता बदल जाती है, जिससे क्रुकिंग ऑयल में टोटल पॉलर कम्पाउण्ड पैदा हो

इस तरह के ऑयल को खाने में इस्तेमाल करने से सेहत पर गंभीर दुष्परिणाम होते है। उन्होंने बताया कि जिस कुकिंग ऑयल में टीपीसी 25 प्रतिशत से ज्यादा हो, उसका इस्तेमाल खाने में नहीं करना चाहिए।

बैठक में अतिरिक्त खाद्य आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल, आईओसीएल के कार्यकारी निदेशक सुनील गर्ग, बॉयोडीजल प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुरेन्द्र सिंह राठौड़ सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।

#### खोले जायेंगे। डॉ. शर्मा प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गये जनता क्लिनिक में चिकित्सक विभाग जयपुर शहर से 50 जनता क्लिनिक

पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि 2019-20 की बजट घोषणा के बाद 5 महीने में ही 12 जनता

जयपुर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ.

रघु शर्मा ने आश्वस्त किया कि

मुख्यमंत्री की बजट घोषणा की

अनुपालना में कोविड का प्रभाव कम

होते ही प्रदेशभर में जनता क्लिनिक

के तहत दानदाताओं तथा समाजसेवियों द्वारा उपलब्ध करवाये गये भवनों में इनका संचालन किया जायेगा तथा सीएसआर फण्ड द्वारा ही इनके संचालन का रवर्चा वहन किया जारोगा। द्वारा तथा नर्सिंग स्टाफएनएचएम द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा नागरिकों को

क्लिनिक शुरू कर दिये गये थे। घोषणा

तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जनता क्लिनिक की योजना लाई गई है। इसमें निःशुल्क दवा योजना के तहत दवा उपलब्ध करवाई जाती है। प्रदेश भर से कुल 172 तथा खोलने की मांग आई है। उन्होंने बताया कि सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में तीन जनता क्लिनिक खोले गये है। इससे

पहले विधायक अशोक लाहोटी के मूल प्रश्न के जवाब में शर्मा ने बताया कि दिसम्बर २०२० तक जयपुर जिले में 12 जनता क्लिनिक प्रारम्भ किये गये है। उन्होंने बताया कि कोविड वैश्विक महामारी के कारण अन्य जिलों में जनता क्लिनिक नहीं खोले जा सकें। उन्होंने जयपुर शहर में खोले गए जनता क्लिनिकों की सूची सदन के

## राज्य सरकार की व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में लड़िकयों को बढ़ावा देने की पहल

### 'मंजिल' परियोजना के लिए राजस्थान शिक्षा विभाग का आईपीई ग्लोबल के साथ करार

जयपुर। राजस्थान शिक्षा विभाग कोविड-१९ महामारी के दौरान छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने में सबसे आगे रहा है। अब जैसे ही स्कूल पूनः शुरू हुए हैं, विभाग लड़िकयों को व्यावसायिक और जीवन कौशल शिक्षा जारी रखने के लिए एक और बड़ी पहल करने जा रहा है।

राजस्थान शिक्षा विभाग ने एक बहुआयामी कार्यक्रम 'मंजिल' के लिए आईपीई ग्लोबल के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। सीआईएफएफ, यूके द्वारा वित्त पोषित 'मंजिल' परियोजना का मूल उद्देश्य स्कलों में किशोरी



बालिकाओं की शिक्षा, उनकी भागीदारी को बढाना एवं व्यवस्था को बेहतर बनाना है। साथ ही बालिकाओं को स्कूली शिक्षा से आगे की पढ़ाई और उसके उपरान्त रोजगार प्राप्ति के मार्ग को प्रभावी रूप से सुगम बनाना है, क्योंकि अधिकांशतया लड़िकयां स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती हैं और

कम उम्र में ही उनकी शादी कर दी जाती है। आज भी जानकारी और की कमी के कारण व्यावसायिक व आर्थिक अवसरों तक लड़िकयों की पहुंच बेहद सीमित है। 'मंजिल' कार्यक्रम स्कूलों में लड़िकयों की काउंसलिंग व समुदाय में माता-पिता से परामर्श करने का काम करेगा, ताकि वे एक सुविचारित तरीके से व्यावसायिक शिक्षा के साथ स्कूली शिक्षा पूर्ण कर सकें। परियोजना जीवन कौशल पर भी ध्यान केंद्रित करेगी।

इस अवसर पर डॉ भंवरलाल, आयुक्त सामग्र शिक्षा अभियान ने कहा कि नई शिक्षा नीति ने व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया है, यह एक अच्छी शुरुआत होगी। जबिक विभाग व्यावसायिक भाग पर कुछ काम कर रहा है। आईपीई ग्लोबल जैसे विशेषज्ञ संगठन का हमारे साथ होना ख्रुशी की बात होगी। हम नई ऊंचाइयों को हासिल करने के लिए तत्पर हैं।

वहीं पद्म कुमार, सीओओ आईपीई ग्लोबल ने संगठन की ओर से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और कहा कि हम इस अवसर के बारे में उत्साहित हैं। यह एक अनूठी पहल है जिसका उद्देश्य रोजगार कौशल के साथ-साथ व्यावसायिक कौशल के तहत लड़िकयों के लिए इंटर्निशिप और अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देना है। हम शिक्षा विभाग के साथ काम करने के लिए उत्साहित है। 'मंजिल' परियोजना डूंगरपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और जयपुर के छह जिलों में काम

### सारदा प्रोटेन्स लिमिटेड

31.12.2020 को समाप्त तिमाही एवं नौमाही के लिए गैरअंकेक्षित स्टैण्डअलॉन वित्तीय परिणामों का सार

पिछले वर्ष समाप्त तिमाही विवरण 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2019 गैर अंकेक्षित गैर अंकेक्षित गैर अंकेक्षित संचालन से कल आय 47.91 1090.12 143.84 अवधि के लिए कर से पहले शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और असाधारण वस्तुओं से पहले) (2.94)9.60 अवधि के लिए कर से पहले शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और असाधारण वस्तुओं से बाद) (2.94)10.04 9.60 अवधि के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और असाधारण वस्तुओं से बाद) (2.94)10.04 9.60 अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए व्यापक लाभ(हानि) और अन्य व्यापक आय) कर के बाद (2.94)9.60 10.04 भुगतान किया हुआ इक्विटी शेयर पूंजी एवं इक्विटी शेयर (अंकित मूल्य 10/- रू. प्रति का) 172.59 172.59 172.59 आरक्षितयाँ (पुनःमूल्यांकन आरक्षितयाँ छोड़कर) पिछले वर्ष की ऑडिटेड बैलेंस शीट अनुसार आय प्रति शेयर (अंकित मुल्य 10 /- रू. प्रति का) (0.17)0.58 0.56 (0.17)2. तरल 0.58 0.56

ध्यान दें: (1) उपरोक्त 31.12.2020 को समाप्त तिमाही और नौमाही के लिए विस्तृत अन-ऑडिटेड किये गए वित्तीय परिणामों का एक उदहारण है . जो सेबी वे विनियमन 33 (सूची निर्धारण और प्रकटीकरण आवश्कताएँ ) विनियम, 2015 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के साथ दायर किया गया है, 31.12.2020 🛚 को समाप्त तिमाही और नौमाही के लिए अन-ऑडिटेड वित्तीय परिणामों का पर्ण प्रारूप कंपनी की वेबसाइट ( www.sardaproteins.com ) और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com) पर उपलप्ध है। (2) उपरोक्त परिणामो की समीक्षा लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गयी थी और निदेशक मंडल द्वारा 12.02.2021 को आयोजित उनकी बैठक में अनमोदित की गयी थी । बैधानिक लेखा परीक्षकों ने उपरोक्त अन-ऑडिटेड किये गए वित्तय परिणामो की सीमित समीक्षा की है और उसी के साथ ऑडिटर्स की सीमित समीक्षा रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंज के साथ दायर की गयी है । (3) यह कथन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत कंपनी ( भारतीय लेखा मानक ) नियम , 2015 (IND-AS) और अन्य मान्यता प्राप्त लेखाकंन प्रथाओं और नीतियों के अनुसार लागू किया गया है। सारदा प्रोटीन्स लिमिटेड तिथि : 12 फरवरी, 2021

परिचालनों से कुल आय व अव

हस्ता. अमित कुमार मोदी कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अ एम.नं. 29371

(लाख में

# असोलयत

जीवन की राहें टेढ़ी-मेढ़ी होनी चाहिए, क्योंकि सीधी सपाट रोड पर आगदमी बिंदास होकर चलता है जबकि कर्व (मोड़) उसे सावधान कर देते हैं। सजग रहने वाला कहीं ठुकराया नहीं जाता, ठोकर नहीं खाता। हकीकत में जीवन की परिभाषा सतत् जागरण है। सजगता में अघटित घटित नहीं होता। वो अपने लक्ष्य की मीनार पर चढ़ जाता। प्रभू महावीर ने होश और हौंसले से परिषह और उपसर्गों के कई घाट जागरण से पार किए और मंजिल के मालिक बने। बांसुरी को देखिए सीधी थी ना, तो सीने पर जख्म झेलकर किसी के होठों से लग सकी। हीरे के कितने आड़े टेढ़े कोण हुए तब वो सुहागिन के सिर पर शोभित हो पाया। सीधी लकड़ी तो बेचारी कोने में पड़ी रहती है या कुत्ते के डराने में काम भले ही आओ। लेकिन जीवन का सीधापन इन टेढ़ी-मेढ़ी राहों को भी पार लगा देगा। इसे हमेशा याद रखना। गौतम सीधे थे गौशालक टेड़ा। आज गौतम मंगल के रूप में सम्मानित किये जाते हें गौशालक कोई अपने बच्चे का नाम भी रखना पसन्द नहीं करते।

### चिंतवशीला वसुमति जी मा.सा.

## हिन्दुस्तान जिंक ने भारत का पहला अंडरग्राउंड फर्स्ट एड स्टेशन किया स्थापित



रेमेडीज। हिन्दुस्तान जिंक की कार्य संस्कृति में सुरक्षा एक अदूट पहलू है और इसी पहलू का विस्तार करते हुए कंपनी ने अपनी रामपुरा अगुचा खदान में का पहला अंडरग्राउंड फर्स्ट एड एवं एम्बुलेंस सेंटर स्थापित किया है। यह अंडरग्राउंड फर्स्ट एड एवं एम्बुलेंस सेंटर फ्रैश एयर बेस से युक्त है, जिसे विशेषतौर पर जमीन के भीतर स्थित

खदान के लिए बनाया गया

जिसकी अंगुआई के लिए योग्य चिकित्सा पेशेवर एवं बचाव प्रमुख की नियुक्ति की गई है। अपनी किस्म

उपचार व्यवस्था २४ घंटे कार्यरत रहेगी और यहां पर समर्पित बचाव एवं पैरामेडिकल स्टाफ की

अंडरगाउंड माइन स्टेशन में एक समर्पित आपातस्थित वाहन भी है, जो एईडी, ईसीजी और रिवाइविंग अपैरेटस से युक्त है।

### एच आर बी फ्लोरीकल्चर लिमिटेड CIN L01300RJ1995PLC009541

पंजीकृत कार्यातयः ए-28, राम नगर, शास्त्री नगर, जयपुर-302016 दूरभाष नं. +91-141-2303098,2303097 (टेलिफेक्स), ई-मेलः hrbfiritd@yahoo.com, वेबसाईटः www.hrb.co.in 31 दिसम्बर 2020 को समाप्त तिमाही और नौमाह के अनअंकेक्षित स्टेण्डलोन वित्तीय परिणाम का सार

IddSOL	३१ व्हिसम्बर २०२० का	31 व्सम्बर २०२० का	। गत वष का ३१-१२-२०१९
	समाप्त तिमाही	समाप्त नौमाही	को समाप्त तिमाही
	अनअंकेक्षित	अनअंकेक्षित <b></b>	अनअंकेक्षित
परिचालनों से कुल आय			-
अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि), (कर, असाधारण	(1,63,189)	(4,32,496)	(2,09,800)
और या असाधारण वस्तुओं से पहले)			
अवधि के लिए कर से पहले ख़ुद्ध लाभ/(हानि)	(1,63,189)	(4,32,496)	(2,09,800)
(असाधारण और या असाधारण वस्तुओं के बाद)			
अवधि के लिए कर पश्चात शुद्ध लॉभ/(हानि)	(1,63,189)	(4,32,496)	(2,09,800)
अवधि के लिए कुल व्यापक आय	(1,63,189)	(4,32,496)	(2,09,800)
समता अंश पूंजी	2,27,63,000	2,27,63,000	2,27,63,000

प्रयोक्त स्टॉक एक्सचेंज को बायर किये गये अनअंकेक्षित तिमाही और नौमाह समाप्ति के वितीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। प्रैमारिक और नौ महीनों के अनअंकेक्षित वितीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com) और कंपनी की वेबसाइट एच आर बी फ्लोरीकल्चर लिमिटेड के लिप् कृष्ण कुमार परवाल (एमडी DIN 0022820

पंजीकृत कार्यालय : एसपी-1-2316, रीको इंडस्ट्रीयल एरिया, रामचन्द्रपुरा, सीतापुर विस्तार, जयपुर-302022, CIN L25209RJ2006PLC022828

टेलिफेक्स : 0141-2333722 ईमेल: investors@tijaira-pipes.com

31 दिसंबर, 2020 को समाप्त तिमाही और को नौ महीने के लिए अन-ऑडिटेड स्टैंडअलोन वित्तीय परिणाम (रुपये लाखों में बिन्दु 7 को छोड़कर)

	तिमाही	समाप्त गैरअंकेक्षित		नौमाह समाप्त व	गैरअंकेक <u>्ष</u> ित	वार्षिक समाप्त अंकेक्षिल
	31.12.2020	30.09.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.03.2020
ान्य इत्य	2595.76	942.98	2109.12	3853.38	6056.63	7338.52
ानि), (कर, असाधारण	(71.92)	(466.16)	5.14	(841.24)	60.66	(244.14)
पहले)						
शुद्ध लाभ/(हानि)	(72.06)	(466.37)	3.91	(841.55)	56.17	(246.36)
ग वस्तुओं के बाद)						
युद्ध लाभ / (हावि)	(72.06)	(466.37)	3.91	(841.55)	56.17	(246.36)
ग वस्तुओं के बाद)						
आय (अवधि के लिए	(72.06)	(466.37)	3.91	(841.55)	56.17	(253.57)

	और या असाधारण वस्तुओं से पहले)						
	अवधि के लिए कर से पहले शुद्ध लाभ/(हानि)	(72.06)	(466.37)	3.91	(841.55)	56.17	(246.36)
	(असाधारण और या असाधारण वस्तुओं के बाद)						
	अविध के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ / (हानि)	(72.06)	(466.37)	3.91	(841.55)	56.17	(246.36)
	(असाधारण और या असाधारण वस्तुओं के बाद)						
	अविध के लिए कुल व्यापक आय (अविध के लिए	(72.06)	(466.37)	3.91	(841.55)	56.17	(253.57)
	(कर पश्चात) समावेशित लाभ/(हानि) और अन्य						
₹	समावेशित आय (कर पश्चात)						
	समता अंश पूंजी (रु.१०/- प्रति का अंकित मूल्य)	2862.66	2862.66	2862.66	2862.66	2862.66	2862.66
_	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का अंकित मूल्य)(वार्षिक नहीं)						
	मूल	(0.25)	(1.63)	0.01	(2.94)	0.20	(0.92)
	तनुकृत	(0.25)	(1.63)	0.01	(2.94)	0.20	(0.92)
_	टिप्पणियाँ:						
_	1. लेखापरीक्षा समिति द्वारा उपरोक्त वितीय परिणामों की समी	क्षा और सिफारिश की व	गई है और 12.02.20	21को आयोजित बैठ	क में निदेशक मंडल द्वा	रा अनुमोदित किया	गया है।

3. आयकर, स्थिगत कर के लिए प्रावधान यदि कोई हो, तो वर्ष के अंत / तिमाही चार पर मान्यता प्राप्त होगी। 4. ऑपरेटिंग सेगमेंट: कंपनी मुख्य रूप से दो खंडों यानी पाइप्स और टेक्सटाइल्स में काम करती है। प्रत्येक ऑपरेटिंग सेगमेंट के उत्पादों पर विचार किया जाता है:

1) पाइप में एचडीपीई, पीवींसी पाइप, सिंचाई प्रणाली शामिल हैं; 2) टेक्सटाइल में मिंक ब्लैंकेट, मारक शामिल हैं।

प्रवीण जैन तिजारिया-प्रबंध (DIN:00115002)



CIN: L27029AP1984PLC004719 Regd. Office: Plot No.38 & 40, APIIC Industrial Park, Gajulamandyam (V), Renigunta (M), Chittoor Dist., - 517520, Andhra Pradesh.

Corp. Office: Plot No.24A/A MLA Colony, Road No.12, Banjara Hills, Hyderabad, Telangana - 500034 Email: legal@nilelimited.com; website: www.nilelimited.com Statement of Standalone & Consolidated

Un-audited Results for the Quarter and Nine Months Ended 31st December, 2020								
					(Rs	s. in Lakhs)		
	Q	uarter Ende	d	Nine mont	hs Ended	Year Ended		
Particulars	31.12.2020	30.09.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.03.2020		
	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Audited		
otal Income from Operations (net)	13,942.29	16,330.81	16,431.60	36,449.21	46,055.03	59,267.45		
let Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	802.13	360.11	927.39	1,070.70	1,274.52	1,349.89		
et Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	802.13	360.11	927.39	1,070.70	1,274.52	1,349.89		
et Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	603.47	271.45	688.10	805.19	1,012.53	1,093.18		
otal Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after	603.47	271.45	688 10	805.19	1 012 53	1 024 87		

### (a) Basic (in ₹)(b) Diluted (in ₹) Notes:

**Equity Share Capital** 

Reserve (excluding Revaluation Reserves

as shown in Balance Sheet of previous year) Earnings Per Share (of ₹ 10/- each)

1) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the BSE Ltd. (Stock Exchange) website

300.19

300.19

300.19

22.92

300.19

26.82

300.19

300.19

NA 13,770.75

(www.bseindia.com), and Website of the Company (www.nilelimited.com).

2) The Consolidated Financial Results include results of wholly owned subsidiaries "Nirmalya Extarcts Private Limited" and "Nile Li-Cycle Private Limited. Both the Subsidiary Companies have not yet started the operations due to which there is no change in Profit/Loss of Consolidated Results compared to Standalone Results being published as on Quarted ended 31.12.2020.

For Nile Limited Place: Hyderabad Sd/- Rajani K Date: 12th February, 2021 Company Secretary



_							
	IJARIA REGD. OFF: SP-SITAPURA EXTE	NSION, J.	AIPUR-30	2022, CIN	l: L25209F		
TIJA	RIA POLYPIPES LIMITED Telefax: 0141-233372	2 Email: inve	estors@tijair	a-pipes.com	(Rs. In lakt	ns except th	e Row No. 7)
EXTR	ACT OF UN-AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESU	LTS FOR TH	E QUARTER I	AND NINE M	ONTHS END	ED DECEMB	ER 31, 2020
		Three	Months End	ded	Nine Mont	hs Ended	Year ended
Sr. No.	Particulars		Jn-audited		Un-au		Audited
		31.12.2020	30.09.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.03.2020
1	Total Income from operations and others	2595.76	942.98	2109.12	3853.38	6056.63	7338.52
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	(71.92)	(466.16)	5.14	(841.24)	60.66	(244.14)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(72.06)	(466.37)	3.91	(841.55)	56.17	(246.36)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(72.06)	(466.37)	3.91	(841.55)	56.17	(246.36)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(72.06)	(466.37)	3.91	(841.55)	56.17	(253.57)
6	Paid-up equity share capital (face value of Rs. 10/- each)	2862.66	2862.66	2862.66	2862.66	2862.66	2862.66
7	Earnings Per share of Rs. 10/- each (not annualised) Basis Diluted	(0.25) (0.25)	(1.63) (1.63)	0.01 0.01	(2.94) (2.94)	0.20 0.20	(0.92) (0.92)
Note	s: 1. The above financial results have been reviewed and						

neir meeting held on 12.02.2021. 2. Previous period figures have been regrouped/rearranged wherever considered necessary. 3. Provision fo ncome Tax, Deferred Tax if any, shall be recognised at year end/quarter four. 4. Operating Segments: The Company primarily operates in two egments i.e. Pipes & Textiles. The products considered for each operating segments are: 1) Pipes includes HDPE, PVC pipe, irrigation system

# WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DISTRIBUTION COMPANY LIMITED

Date: 12.02.2021

The Chief Engineer, Procurement & Contracts Department, WBSEDCL, Vidyut Bhavan

Tender Notice No. & Description of Item	Qty. (Nos.)	Estimated Value (approx.) (Rs.)	Last date of Submission of e-Tender
Tender Notice No. P-45/2020-2	1/PC-II/SS	TR	09.03.2021 (up to 14:00 Hrs.)
3-Phase, 50 Hz, Delta/Star (Dyn 11), Copper wound CRGO Core Station Service Distribution Transformer O/D type ONAN cooled 100 KVA; 33/0.415 KV with Off load Tap Switch on HV side	15	0.52 Cr.	

the Tender Notice may be had from www.wbsedcl.in and the above-mentioned Office (Ph. No. 033-2319-7565/7392).

### **Bhilwara Spinners Limited** CIN: L117115 RJ 1980 PCL008217

Regd. Off.: 26, Industrial Area, Bhilwara - 311 001 (Rajasthan) UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2020

	Particulars	Quarter ended	Nine Months ended	Year ended
		31.12.2020	31.12.2020	31.3.2020
ı		Un Aı	udited	Audited
	Total income from Operation (net)	41.6	149.24	687.27
	Other Income	77.76	112.68	83.24
ı	Exceptional Items	(3.07)	(5.14)	462.14
	Net Profit (+)/Loss(-) from Ordinary Activities	58.51	80.32	17.43
	Net Profit (+)/Loss(-) after Exceptional income & tax	47.84	62.45	384.35
	Paid-up equity share capital (Face Value of the Share Rs.10/- per share)	676	676	676
	Reserve excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of previous accounting year			1508.16
ı	Earning per shair from Orderinary Activties	0.87	1.19	0.26

Notes: The above is an extract of the detailed formet of financial result for the quarter/Nine Month ended 31st December 2020 filed with the stock Exchange under regulation 33 of SEBI (Listing and other Discloser Requirments)Regulations 2015.The full formet o the financial results are avalable on the stock Exchanges websites www.bseindia.com

Earning per shair After Exceptional income & Tax

0.71

0.92

By order of the Board for Bhilwara Spinners Limited Ashok Kumar Kothari Date: 12th February, 2021 Director

	,						
Place : Bhilwara (Rajasthan) DIN-00132801							
James Warren Tea Limited Corporate Identification Number (CIN): 1.15491AS2009PLC009345 Registered Office: Dhoedaam Tea Estate, P.O. Borahapjan, Dist. Tinsukia, Assam 786150, Tel: 03759-247922, Corporate Office: Aspirations Vintage, 12. Pretoria Street, Kolkata 700071, Tel: 91:33-40341000 Pax: 91-33-40341015, E-mail: see@wlini, Website: www.jameswarrentea.							
Extract of Un-Audited Financial Results for the Quarter and Nine-Months Ended 31st December, 2020							
				(Rs. in Lakhs)			
SL No.	Particulars	3 months ended on 31.12.2020	9 months ended on 31.12.2020	3 months ended on 31.12.2019			
		Un-audited	Un-audited	Un-audited			
		Oli-auditeu	Oli-audited	On-audited			

SL No.	Particulars	3 months ended on 31.12.2020	9 months ended on 31.12.2020	3 months ended on 31.12.2019
		Un-audited	Un-audited	Un-audited
1	Total income from operations	4,245.26	11,392.42	4,679.00
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(658.24)	3,666.08	(100.51)
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(658.24)	5,122.11	(100.51)
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(208.98)	4,859.36	(72.11)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	51.77	5,216.93	(146.41)
6	Equity Share Capital	524.27	524.27	697.91
7	Other Equity (excluding Revaluation Reserve)	-	-	-
8	Earnings per share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)**			
	Basic:	(3.32)	71.97	(1.03)
	Diluted:	(3.32)	71.97	(1.03)

IT be above is an extract of the detailed format of the Un-audited Financial Results for the quarter and nine-months ender 31st December, 2020 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosurs Requirements) Regulations, 2015. The full format of the aforesaid Financial Results are available on the website of SSI (www.bseindia.com), CSE (www.cse-india.com) and on the Company's website (www.jameswarrentea.com). As approved by the Board of Directors on 25th July, 2020 the Company has concluded the Buyback of 17,3452. Equity shares at a price of Rs. 114/- per share in November 2020 and consequent accounting effect with compliance theorem shares.

By Order of the Board of Directors For James Warren Tea Limited

: 12.02.2021 Sandip Das (Wholetime Director) DIN: 07979791									
INDRAPRASTHA GAS LIMITED  (A Joint Venture of GAIL (India) Ltd., BPCL & Govt. of NCT of Delhi)  Corporate Identity Number (CIN)-L23201DL1998PLC097614									
raprastha Gas Lin	NOTICE INVITING TENDER (OPEN DOMESTIC COMPETITIVE BIDDING)  raprastha Gas Limited (IGL) invites bids through e-tendering mode under single stage, two cover tem from eligible bidders for following:								
Tender No.	Brief Description Of Work	Sale of tender document	Submission of offer						
ET2/CP/CP16321	Supply and Installation of Permanent Cathodic Protection (PCP) System and Corrosion Survey of Steel Pipeline Network	From 15.02.2021 to 01.03.2021	01.03.2021 till 1430 Hrs						

For detailed tender document, please visit www.iglonline.net or ITI Limited's e-tender portal a https://petroleum.euniwizarde.com. All subsequent changes w.r.t above tender will be posted only or the above mentioned website. Download IGL Connect App through Android Google Playstore and Apple HAR EK KAAM DESH KE NAAM

## **DIGISPICE**

**DiGiSPICE Technologies Limited** (formerly Spice Mobility Limited)

Regd. Office: 622, 6th Floor, DLF Tower A, Jasola Distt. Centre, New Delhi -110025 CIN No.: L72900DL1986PLC330369

Tel.: +91 11 41251965; Email: complianceofficer@digispice.com; Website: www.digispice.com

Extract of Unaudited Consolidated Financial Results

for the Quarter and Nine Months period ended December 31, 2020			
Particulars	For the Quarter ended 31.12.2020	For the Nine Months ended 31.12.2020	For the Quarter ended 31.12.2019
Total Income from operations	18,455.76	52,623.70	9,409.63
Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	259.86	1,731.67	(332.79)
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	258.91	1,581.24	(515.13)
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items and/or Non controlling Interest)	175.09	1,659.13	(565.66)
Total Comprehensive Income/(Loss) for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income/(Loss) (after tax)]	284.13	1,199.17	(408.36)
Equity Share Capital (Face value Rs 3/- per share)	6,055.02	6,055.02	6,055.02
Earnings per share (for continuing and discontinued operations) (of Rs 3/- each)			
Basic:	0.08	0.73	(0.25)
Diluted:	0.08	0.73	(0.25)

#### Notes:

Kev Standalone Financial Information is given below

(Rs. in Lakhs)

· · · <b>,</b> · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			(/	
	For the	For the Nine	For the Quarter ended	
Particulars	Quarter ended	Months ended		
	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019	
Net Sales / Income from Operation	2,807.32	8,900.17	2,697.79	
Profit/(Loss) before tax	289.15	61.43	(276.11)	
Net Profit/(Loss) after tax	289.15	(19.02)	(369.43)	

2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Nine months ended Financial Results filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on 12th February, 2021. The full Quarterly unaudited Financial results are available on the Stock Exchange website(s) www.bseindia.com, www.nseindia.com and on the Company's website www.digispice.com.

> By order of the Board For DiGiSPICE Technologies Limited (formerly Spice Mobility Limited)

Dated: February 12, 2021 Place: Noida

Rohit Ahuja **Executive Director** 

E-Tender Notice

<u>DAHOD SMART CITY DEVELOPMENT LIMITED</u>

#### Dahod Smart City Development Limited (DSCDL) invites online E-Tenders for "Supply and Delivery of Municipal Solid Waste Storage Bins" Tender ID:448940 Estimated Cost (In Rs.) Rs.47,53,850/ EMD (In Rs.) Rs.47.538/-Tender Fee (In Rs.) Rs.10,000/-Last Date for online Submission of Tender Document 26/02/2021

GENERAL INSTRUCTIONS: (1) The tender document for this work can be downloaded from website www.nprocure.com. (2) Other Details of NIT shall be seen on website. (3) One Copy of Technical Bid including all drawings, data sheets and duly filled up formats excluding the Financial Bid along with original Tender Fee and Bid Security to be submitted to the Owner up to 17.30 Hrs. on or before 04-03-2021 at the below mentioned address: Chief Executive Officer, Dahod Smart City Development Limited, Jilla Seva Sadan Chhapri, Dahod-389151, Gujarat. **By RPAD / speed post only.** Chief Executive Officer, DSCDL reserves the right to accept or reject any or all tenders without assigning any reason thereof. This Tender notice shall form a part of contract document

Tender No.05 of 2020-21 Chief Executive Officer Email:dahodsmartcity20@gmail.com Phone:6291005046

# (A Govt. of West Bengal Enterprise) Regd. Office : Vidyut Bhavan, Block-DJ, Sector-II, Bidhannagar, Kolkata-700 09 CIN : U40109W82007SSC113473, cecorpmont@gmail.com, www.wbsedcl.in **WBSFDLL**

Textile includes Mink Blankets, Mask.

(a) Revenue from Operations (b) Other Income

III Total Income (I+II)
IV Expenses
(a) Cost of Goods Sold
(b) Shipping and Handling Expenses
(c) Sales and Marketing Expenses
(d) Employee Benefits Expense
(e) Finance Costs

Total Expenses

Tax expense

Profit Before Tax (III - IV)

Depreciation and Amortisation Expense Other Expenses

(4th Floor), Bidhannagar, Block-DJ, Sector-II, Kolkata-91 invites E-Tender from genuine

Tender Notice No. & Description of Item	Qty. (Nos.)	Estimated Value (approx.) (Rs.)	Last date of Submission of e-Tender	
Tender Notice No. P-45/2020-2	r Notice No. P-45/2020-21/PC-II/SSTR			
3-Phase, 50 Hz, Delta/Star (Dyn 11), Copper wound CRGO Core Station Service Distribution Transformer O/D type ONAN cooled 100 KVA; 33/0.415 KV with Off load Tap Switch on HV side	15	0.52 Cr.	09.03.2021 (up to 14:00 Hrs.)	

ICA-T3675(2)/2021

**PARTICULARS** 

### Notice Inviting e-Tender

For and on behalf of the Director

INTRASOFT TECHNOLOGIES LIMITED

Tel: 91-22-4004-0008. Fax: 91-22-2490-3123, Email: intrasoft@itlindia.com

Website: www.itlindia.com CIN: L24133MH1996PLC197857

STATEMENT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31 DECEMBER 2020

(Unaudited)

12503.06

12183.35

319.7

Quarter Ended

31-12-2020 | 30-09-2020 | 31-12-2019

(Unaudited)

16868.94

1925.32 2123.59 436.06 81.72 103.34 302.35

16805.57

(Unaudited)

13815.22 103.85

13919.07

10319.7

13796.65

122.42

Registered Office : 502A, Prathamesh, Raghuvanshi Mills Con Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013.

GL/ET2/CP/CP16321

Deputy General Manager, ED - Bishalgarh, TSECL invites tender for "Extension of 11 KV District Magistrate Feeder including construction of 3 x 200 KVA Distribution Transformer Sub-Station for providing 3-Phase Service Connection to newly constructed District Administrative Complex, Sepahijala District under NLCPR Scheme within the jurisdiction of Electrical Sub-Division, Bishramganj" on behalf of TSECL from the eligible & resourceful agencies / firms having sufficient technical & financial capabilities and experiences through electronic tendering (e-tendering). Details of tender will be available on websites http://tripuratenders.gov.in and www.tsecl.in.

> **Deputy General Manager** Electrical Division - Bishalgarh Gakulnagar, Sepahijala, Tripura

31-12-2020 31-12-2019

(Unaudited)

46615.29 330.19

46945.48

4367.92 5190.90 1158.44 391.18 302.24 899.80

46724.70

(Unaudited)

51263.98

50683.20

₹ In Lakhs

Year Ended

31-03-2020

(Audited)

59067.54 485.42

59552.96

43643.37 5255.92 6637.98 1566.92 553.87 409.43 1272.24

59339.73

213.23

210.87

-10.73 2.97

3.91 367.69 -1.09

573.62

1473.17

13316.18

1.43

690.06 138.38 118.88

### TECHNOLOGIES LIMITED

Corporate Identity Number: L74140DL1991PLC046369 Registered Office: 806, Siddharth, 96, Nehru Place, New Delhi – 110 019 Corporate Office: Plot No. 3A, Sector 126, Noida-201 304, U.P., India Telephone: +91 11 26436336; Website: www.hcltech.com Email Id: Investors@hcl.com

#### NOTICE TO EQUITY SHAREHOLDERS TRANSFER OF EQUITY SHARES TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Co Act, 2013 ("Act") and Rule 6 of the Investor Education and Protection Fund ("IEPF Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, notified by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") on September 7, 2016, and amended from time to time ("Rules"), all shares in respect of which dividend(s) remain unpaid or unclaimed for a period of seven consecutive years shall be transferred to the DEMAT Account of the IEPF Authority (the "IEPF DEMAT Account") within 30 days from the due date of transfer. The shares in respect of the dividend declared by the Company as per the details below are lying unpaid / unclaimed as on date and are due to be transferred to the IEPF DEMAT

Account:				
Dividend Particulars	Payment Date of dividend	Date of completion of seven years		Date of transfer of shares to IEPF DEMAT Account
3rd Interim Dividend	May 17, 2014	May 16, 2021	May 17, 2021	June 15, 2021

All benefits accruing on such shares e.g. bonus issue, split, consolidation, fraction shares, etc. except right issue shall also be credited to the IEPF DEMAT Account. The Company has uploaded on its website https://www.hcltech.com/investors/iepfdetails the details, including the Names and Folio number / DP ID - Client ID of the shareholders whose shares are due for transfer to the IEPF DEMAT Account. The Company is also sending individual notices to such shareholders at their latest available

addresses with the Company / Registrar and Share Transfer Agent ("RTA")

Shareholders may note that both the unpaid / unclaimed dividend and the corresponding shares transferred to the IEPF DEMAT Account including all benefits, if any, accruing on such shares after the date of transfer to the IEPF DEMAT Account can be claimed from the IEPF Authority after following the procedure prescribed in the Rules.

The concerned shareholders, holding shares in physical form and whose shares are due for transfer to the IEPF DEMAT Account, may note that the Company would be issuing duplicate share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) held by them for the purpose of transfer of shares to the IEPF DEMAT Account in accordance with the prescribed Rules and upon such issue, the original share certificate(s) registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable

Shareholders may also note that necessary Corporate Action shall be initiated by the Company to transfer the shares to the IEPF DEMATAccount. The shareholders are requested to write to the Company on or before May 16, 2021 for

making a valid claim for the unpaid / unclaimed dividend. In case no valid claim has been made, the said shares will be transferred to IEPF DEMAT Account by the due date as per the procedure stipulated in the Rules

Date: February 12, 2021 Place: Noida (U.P.)

For HCL Technologies Limited Manish Anand **Company Secretary** 



### भारतीय रिज़र्व बैंक RESERVE BANK OF INDIA

DEPARTMENT OF SUPERVISION www.rbi.org.in

### Cancellation of Certificates of Registration issued to Non- Banking Financial Companies

The Reserve Bank of India has since cancelled certificates of registration issued to number of non-banking financial companies under sub section of section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934 (RBI Act) and therefore these companies are not authorised to carry on the business of a non-banking financial institution as defined in clause (a) of section 45-I of the RBI Act, after cancellation of their certificate of registration

The list containing the names of non-banking financial companies whose certificate of registration have been cancelled is published on the official website of the Reserve Bank https://rbi.org.in/Scripts/BS\_NBFCList.aspx and the same is being updated regularly

The members of the public may visit the official website of the Reserve Bank of India for information on companies whose certificate of registration have been cancelled by the Reserve Bank.

New Delhi General Manage

February 09, 2021

Reserve Bank of India "Don't get cheated by E-mails/SMSs/Calls promising you money




## WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DISTRIBUTION COMPANY LIMITED

(A Govt. of West Bengal Enterprise) Regd. Office : Vidyut Bhavan, Block-DJ, Sector-II, Bidhanna CIN : U40109WB2007SGC113473, cecorpmont@gmall.com **EXPRESSION OF INTEREST** 

WBSEDEL EOI shall be published in the GTAI (German Trade & Invest) portal on behalf of the Chief

Engineer, SPGD, WBSEDCL, Vidyut Bhavan, 5th Floor, Block - DJ, Bidhan Nagar, Sec-II, Kolkata-700091 from the EPC contractors to express their interest for the following work through e-tendering for Ref. ICB No. — BMZ201667724/KFW505133 of the GTAI Portal. Name of work: Engineering, Procurement, Construction, 05 (Five) years operation and maintenance of 125 MW (AC) Solar Photovoltaic Power Plant at Dadanpatrabar, Ramnagar-II Block, Purba Medinipur, West Bengal, India; Deadline of Receipt: 09 March 2021, 15:00 hrs. (CET). EOI shall be submitted online through GTAI (German Trade & Invest) portal. Further details may be had from www.wbsedcl.in & www.wbtenders.gov.in and the above-mentioned office. Ph No.: 033 2319-7784/7484; Mob. No.:(+91) 7449300391 & e-mail ID: solarwbsedcl2018@gmail.com.



These consolidated financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards notified under Section 133 of the Companies Act 2013 ("the Act") read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended by the Companies (Indian Accounting Standards) (Amendment) Rules, 2016. These results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 12 February 2021.

2. Statutory Auditors of the Company have reviewed the results for the quarter and nine months ended 31 December 2020. An unmodified conclusion has been issued and the same is being filed with the stock exchanges along with the above results.

3. As per the requirements of IND AS 108 as notified under Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 as specified under Section 133 of the Companies Act, no disclosure is required as the Company is operating in single business segment of Internet based delivery of products and services.

4. The Group has, in the preparation of these interim condensed consolidated financial results, considered the possible effects that may result from COVID-19 pandemic, including the recoverability of carrying amounts of financial annotal annotal annotal mancial results, used internal to the possible future uncertainties in the global economic conditions because of the pandemic, the Group has, at the date of approval of these condensed financial results, used internal and external sources of information including credit reports and related information and economic forecasts and expects that the carrying amount of these assets will be recovered in due course of time.

5. The Indian Parliament has approved the Code on Section Security, 2020 which would impact the contributions by the company towards Provident Fund and Gratuity. The Ministry of Labour and Employment.

5. The Indian Parliament has approved the Code on Social Security, 2020 which would impact the contributions by the company towards Provident Fund and Gratuity. The Ministry of Labour and Employment has released draft rules for the Code on Social Security, 2020 on November 13, 2020, and has invited suggestions from stakeholders which are under active consideration by the Ministry. The Holding Company and its Indian subsidiaries will assess the impact and it is evaluation once the subject rules are notified and will give appropriate impact in its financial statements in the period in which, the Code becomes effective and the related rules to determine the financial impact are published.

6. The Consolidated financial results of the Company for the quarter and nine months ended 31 December 2020 are available on the Company's website www.itlindia.com

For IntraSoft Technologies Ltd. Arvind Kajaria Managing Director





### **Growth** is

not just adopting new technologies. It's also adapting to new realities.

Growth is...On.



Place: Kolkata

DIN. 00106901

Financial Results for the Quarter Ended

mint.live livemint livemint www.livemint.com